



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 36

जनवरी 22, 2021

संख्या 4

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)					
मद	2020	2021		घट - बढ़	
	17 जनवरी	8 जनवरी	15 जनवरी	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2278427	2771256	2783761	12505	505334
1.1 संचलन में नोट	2278414	2771243	2783749	12507	505335
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	13	12	-1	0
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	547082	452435	483618	31183	-63464
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7110	5183	5653	470	-1457
2.6 अन्य बैंक	34152	29882	29077	-805	-5075
2.7 अन्य	370552	969301	930401	-38900	559850
3 अन्य देयताएं	1140304	1472530	1449770	-22760	309466
कुल देयताएं / आस्तियां	4377768	5700730	5682424	-18305	1304656
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3070167	3999182	3987381	-11801	917214
2 सोना	203054	275376	263499	-11877	60445
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	974192	1294249	1293804	-445	319612
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	87735	—	—	—	-87735
4.2 राज्य सरकारें	7499	5460	9955	4496	2456
4.3 नाबार्ड	—	25101	26181	1080	26181
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	21159	77097	77193	96	56034
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
4.8 अन्य	4272	14264	14022	-243	9749
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
5.2 खजाना	—	—	—	—	—
6 निवेश	1964	1964	1964	0	0
7 अन्य आस्तियां	7726	8037	8426	388	700

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	15 जनवरी 2021 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4269145	584242	-23917	-1839	666990	106436	983585	122085
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3956894	541507	-11700	-284	623079	99294	910956	113058
1.2 स्वर्ण	263499	36060	-11877	-1534	32972	5482	60445	7498
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11046	1512	-54	-4	246	79	769	66
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	37706	5163	-286	-17	10693	1580	11415	1463

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

15 जनवरी, 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹441636 करोड़	2021													
	2 जनवरी	3 जनवरी	4 जनवरी	5 जनवरी	6 जनवरी	7 जनवरी	8 जनवरी	9 जनवरी	10 जनवरी	11 जनवरी	12 जनवरी	13 जनवरी	14 जनवरी	15 जनवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	449494	448791	430276	432150	432538	432588	452435	449689	448981	433755	431999	432778	433354	483618
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.8	101.6	97.4	97.9	97.9	98.0	102.4	101.8	101.7	98.2	97.8	98.0	98.1	109.5

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	1 जनवरी 2021 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	205021	-2308	19240	-29327	37418	8953
1.2 बैंकों से उधार	42704	-3005	-25168	-21298	-17422	-11587
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16213	-511	-3322	50	-4550	4396
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14726753	247792	636593	1159261	1176605	1516388
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.7	5.1	8.5	9.8	11.5
2.1.1 मांग	1621564	56966	-142787	4561	134627	253064
2.1.2 मीयादी	13105188	190826	779380	1154699	1041978	1263324
2.2 उधारियां	253836	2291	-61912	-55603	-50621	-62505
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	649989	35337	-34540	46313	29819	140882
3 रिज़र्व बैंक से उधार	77140	42	-162523	-208483	-99309	58975
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	559783	-13413	-18598	-63663	72019	-62203
4.1 उपलब्ध नकदी	85591	657	4644	-1670	12044	6070
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	474193	-14070	-23242	-61993	59975	-68272
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	147402	-3090	-69742	-8000	-68005	-5905
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9159	-748	-22977	-11114	-14770	-116
5.3 बैंकों को अग्रिम	20205	-762	-2688	-10327	-4651	-6742
5.4 अन्य आस्तियां	27139	-1500	-9644	-26893	3153	-6096
6 निवेश	4480724	67119	398690	733375	393629	700978
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.5	11.8	19.6	11.6	18.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4479745	67899	392211	741049	388342	708532
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	979	-780	6479	-7674	5286	-7555
7 बैंक ऋण	10704649	157612	264369	333788	698645	668557
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.5	2.7	3.2	7.5	6.7
7 क.1 खाद्य ऋण	92545	-608	41892	40781	11161	9043
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10612104	158220	222477	293008	687484	659515
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10528316	152645	298249	378807	707374	708073
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	23293	714	-1675	-2364	3892	-1255
7 ख.3 भुनाए गए	104264	3261	-24024	-41419	-8094	-30008
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	18583	1048	868	-1874	3291	-6872
7 ख.5 भुनाए गए	30192	-56	-9049	638	-7818	-1381

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2020	2020		2021		
	17 जनवरी	18 दिसंबर	25 दिसंबर	1 जनवरी	8 जनवरी	15 जनवरी
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.77	3.96	..	3.80	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	76.21	72.84	..	72.69	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	41.95	19.33	..	28.79	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.29	30.48	..	30.43	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	60.17	73.10	..	63.26	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.45/9.40	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.50/7.95	6.55/7.10	6.55/7.10	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.10/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	4.97	3.20	3.24	3.22	3.16	3.20
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.14	3.13	3.11	3.08	3.04	3.27
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.23	3.35	3.35	3.34	3.35	3.45
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.30	3.45	3.46	3.46	3.47	3.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.86	5.92	5.91	5.91	5.91	5.99
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.04	73.51	73.58	73.03	73.33	73.02
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.14	90.03	89.81	89.23	89.94	88.64
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	4.05	3.55	3.84	3.99	3.93	4.32
3-माह	4.16	3.59	3.75	4.00	4.17	4.82
6-माह	4.22	4.38	4.35	4.52	4.45	4.79

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीकी/यूरोल भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020	2021	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च	1 जनवरी	राशि	%	2019-20		2020-21		2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18300352	244980	1.4	834092	5.4	1500388	8.9	1494810	10.1	2034193	12.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2674707	-6805	-0.3	127024	6.2	324958	13.8	227544	11.7	495473	22.7
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1744689	58061	3.4	-137057	-8.4	6997	0.4	142306	10.6	255234	17.1
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13838546	193103	1.4	842204	7.2	1164530	9.2	1117083	9.8	1274739	10.1
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42410	621	1.5	1921	6.1	3903	10.1	7877	30.5	8747	26.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5826510	189274	3.4	744899	17.0	866148	17.5	666563	14.9	693121	13.5
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1102053	121580		333258		109861		257475		-33156	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4724457	67694	1.5	411641	11.5	756287	19.1	409088	11.4	726278	18.2
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11362980	158154	1.4	314729	3.0	324336	2.9	763862	7.7	665532	6.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	11496	291		-9090		-1670		-1537		5223	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11351485	157864	1.4	323819	3.1	326006	3.0	765399	7.7	660310	6.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4567300	1888	0.0	436078	14.2	766264	20.2	613841	21.2	1060382	30.2
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26618	-	-	351	1.4	271	1.0	440	1.7	380	1.4
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रुतर देयताएं	3026427	3483057	104336	3.1	661965	27.2	456630	15.1	549896	21.6	385222	12.4
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रुतर देयताएं	1378342	1457429	-21148	-1.4	109590	10.4	79087	5.7	96969	9.1	289044	24.7

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020	2021	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च	15 जनवरी	राशि	%	2019-20		2020-21		2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3371307	43456	1.3	155709	5.6	341600	11.3	299803	11.4	445117	15.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2810367	12507	0.4	167882	7.9	363056	14.8	239594	11.6	505715	21.9
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	543888	518348	30848	6.3	-13625	-2.3	-25540	-4.7	52865	9.9	-69996	-11.9
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42591	101	0.2	1452	4.6	4084	10.6	7344	28.4	9398	28.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1051665	3977		268067		59473		205958		-18353	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1041752	-519		262088		52011		204102		-20809	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-511052	45049		-456569		-310159		-352115		-207334	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-520393	46831		-447442		-306334		-350073		-210439	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4250627	-28737	-0.7	422986	14.8	660225	18.4	455848	16.2	979054	29.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26618			351	1.4	271	1.0	440	1.7	380	1.4
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रुतर देयता	1378342	1446551	-23167	-1.6	79126	7.5	68209	4.9	10328	0.9	308630	27.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
11 जनवरी 2021	-	655478	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-655478
12 जनवरी 2021	-	659817	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-659814
13 जनवरी 2021	-	648243	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-648190
14 जनवरी 2021	-	670642	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-670641
15 जनवरी 2021	-	423872	-	200009	96	-553	-	10000	10000	-	-	-	-	-624338
16 जनवरी 2021	-	20857	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-20694
17 जनवरी 2021	-	869	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-849

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

**जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	नवंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	148.6	150.4	158.9	157.3	- 1.0	5.9	4.6
1.1 ग्रामीण	149.9	152.3	160.7	158.5	- 1.4	5.8	4.1
1.2 शहरी	147.0	148.3	156.9	156.0	- 0.6	5.9	5.2
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	119.9	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	122.3	123.0	124.2	124.5	0.2	3.4	1.2
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	147.2	148.9	151.2	146.5	- 3.1	6.6	- 1.6
3.2 ईंधन और बिजली	101.3	103.2	91.3	94.2	3.2	- 5.3	- 8.7
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.8	118.0	121.3	123.0	1.4	3.7	4.2

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
18 दिसंबर 2020	68770	8003	3.08 - 4.44
1 जनवरी 2021	74955	12583	3.08 - 4.86

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
31 दिसंबर 2020	365185	87488	3.06 - 12.73
15 जनवरी 2021	386216	49902	2.94 - 8.53

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	17 जनवरी 2020	8 जनवरी 2021	15 जनवरी 2021
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	12535	17720	13805
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	8622	1269	5712
3 सीबीएलओ#	372094	542622	634408
4 बाजार रेपो	266469	314803	379416
5 कॉर्पोरेट बांड में रेपो	918	3540	2471

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

15 जनवरी 2021 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2016	17917	70857	196153
182-दिवसीय	83595	27732	3871	186709
364-दिवसीय	153025	133238	15855	431273
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (15 जनवरी 2021 तक)	2019 - 20 (17 जनवरी 2020 तक)	2019-20	2020 - 21 (15 जनवरी 2021 तक)	2019 - 20 (17 जनवरी 2020 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1102838	666000	710000	904773	429972	473972
2. राज्य सरकारें	583196	425318	634521	477719	310287	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।